



# ज़िंदगी कीमती या सस्ती?

“इंसान परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है। इसलिए इंसान का कत्ल करना दुनिया की सबसे बेशकीमती और सबसे पाक चीज़ का खातमा करना है।”  
—विलियम बार्कले की किताब *सही-गलत को समझने के लिए आम इंसान की गाइड*, अंग्रेज़ी।

‘दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़।’ क्या आप भी ज़िंदगी के बारे में यही नज़रिया रखते हैं? आज ज़्यादातर लोगों का बर्ताव देखने पर यह साफ़ ज़ाहिर होता है कि वे ऊपर बताए लेखक की बात से राज़ी नहीं। आज इंसान इतने ज़ालिम हो गए हैं कि वे अपने स्वार्थी लक्ष्यों को पूरा करने की धुन में लाखों लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतार देते हैं, उन्हें दूसरों की खुशहाली की रत्ती-भर भी परवाह नहीं होती।—सभो-पदेशक 8:9.

## रदी और फेंकाऊ

इसकी एक सही मिसाल है, पहला विश्वयुद्ध। इतिहासकार ए. जे. पी. टेलर कहते हैं कि उस भयानक लड़ाई के दौरान कितनी ही बार “बिना किसी वजह के ढेर सारे लोगों की बलि चढ़ा दी गयी।” नाम और शोहरत की भूख में सैनिक अफसरों ने अपने फौजियों को ऐसे इस्तेमाल किया मानो वे कोई रदी और फेंकाऊ चीज़ हैं। वर्डन नाम की जगह के लिए फ्रांस में हुई लड़ाई की ही बात लीजिए। इस जंग में पाँच लाख से ज़्यादा लोग हताहत हुए। टेलर लिखते हैं: “इस जंग में ऐसा कोई [अहम] इलाका दाँव पर नहीं लगा था जिसे हासिल करने या गँवा देने में किसी की हार या जीत होती। बस शोहरत कमाने के लिए खून की नदियाँ बहायी गयीं।”—*पहला विश्व युद्ध*, अंग्रेज़ी।

आज भी जहाँ देखो वहाँ ज़िंदगी बस दो कौड़ी की मानी जाती है। विद्वान केवन बेलज़ कहते हैं कि हाल के सालों में, “आबादी के तेज़ी से बढ़ जाने से दुनिया में काम की तलाश करनेवाले गरीबों और बेसहारा लोगों की भरमार लग गयी है।” आज जहाँ व्यापार जगत लोगों का खून चूस रहा है और “ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं रही,” वहाँ इन गरीबों को बस अपना पेट पालने के लिए ज़िंदगी-भर एड़ियाँ रगड़नी पड़ती हैं। बेलज़ कहते हैं कि इन गरीबों का नाजायज़ फायदा उठानेवाले उनके साथ गुलामों जैसा सलूक करते हैं, यानी “पैसा कमाने के लिए

उनका पूरा इस्तेमाल करते हैं और फिर उन्हें रद्दी की तरह फेंक देते हैं।”—*फेंकाऊ लोग, अंग्रेज़ी।*

### “वायु को पकड़ना”

इसके अलावा, और भी कई कारणों से लाखों लोग खुद को बिलकुल बेकार और लाचार महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि वे मरें या जीएँ, इससे दूसरों को कोई फर्क नहीं पड़ता। युद्ध और नाइंसाफी के अलावा, सूखे की मार, अकाल, बीमारियाँ, अज़ीज़ों की मौत और ऐसी अनगिनत मुसीबतों से आज पूरी मानवजाति पीड़ित है। इसलिए लोग सोच में पड़ जाते हैं कि क्या यह जीना भी कोई जीना है।—सभोपदेशक 1:8, 14.

माना कि हर कोई ज़िंदगी में ऐसी घोर तंगहाली या बड़ी आफत का शिकार नहीं होता। लेकिन जिन्हें ऐसे भारी संकटों का सामना नहीं करना पड़ता है, वे भी प्राचीन इस्राएल के राजा सुलैमान के इन शब्दों से सहमत होते हैं,

जिसने पूछा: “मनुष्य जो धरती पर मन लगा लगाकर परिश्रम करता है उस से उसको क्या लाभ होता है?” बहुत-से लोग जब अपनी ज़िंदगी के बारे में गहराई से सोचते हैं, तो उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने जो कुछ किया वह “व्यर्थ और वायु को पकड़ना है।”—सभोपदेशक 2:22, 26.

कई लोग जब अपनी ज़िंदगी के बीते दिन याद करते हैं, तो पूछते हैं: “क्या इसी को ज़िंदगी कहते हैं?” जी हाँ, ऐसे कितने लोग होंगे जिन्होंने कुलपिता इब्राहीम की तरह सही मायनों में “संतुष्ट जीवन” बिताया हो? (उत्पत्ति 25:8, *NHT*) बहुत-से लोगों को हमेशा यही लगता है कि उनकी ज़िंदगी बिलकुल बेकार या बेमतलब की है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपकी ज़िंदगी भी इन लोगों की तरह हो। यहोवा की नज़र में हर इंसान का जीवन अनमोल है और वह चाहता है कि हममें से हरेक जन सचमुच खुशी और संतोष से भरी ज़िंदगी बिताए। ऐसी ज़िंदगी कैसे मुमकिन है? ध्यान दीजिए कि इस बारे में अगला लेख क्या बताता है।

# आपकी ज़िंदगी कितनी कीमती है?

**प**हले विश्वयुद्ध के दौरान, एक तरफ जहाँ यूरोप में लाखों लोगों को मारकर लाशों का ढेर लगाया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ अंटार्कटिका में कुछ लोगों की जान बचाने के लिए जी-तोड़ कोशिश की जा रही थी। दरअसल, एंग्लो-आइरिश खोजकर्ता अर्नस्ट शैकलटन और उसके साथी एक खोज-यात्रा पर निकले थे। इस दौरान उन पर एक बड़ी मुसीबत टूट पड़ी। उनका जहाज़ *इंडियोरंस* समुद्री बर्फ में फँस गया और फिर टुकड़े-टुकड़े होकर डूब गया। शैकलटन अपने साथियों को किसी तरह बचाकर ऐलिफेंट द्वीप पर ले आया, जो दक्षिण अतलांतिक महासागर में है। यहाँ वे कुछ हद तक सुरक्षित थे, मगर अब भी उन पर से खतरा टला नहीं था।

शैकलटन ने देखा कि अब उनके बचने का बस एक ही उपाय है, मदद के लिए अपने कुछ आदमियों को साउथ

जॉर्जिया द्वीप के व्हेलिंग स्टेशन (व्हेल पकड़ने की जगह) भेजा जाए। यह द्वीप 1,100 किलोमीटर दूर था और शैकलटन के पास 7 मीटर लंबी एक ही लाइफबोट थी, जो उसने डूबते *इंडियोरंस* से निकाल ली थी। उनके बचने की उम्मीद बहुत कम नज़र आ रही थी।

फिर भी, शैकलटन और उसके कुछ साथी समुद्र में 17 दिन तक मुश्किल भरा सफर तय करके



मई 10, 1961 को साउथ जॉर्जिया पहुँचे। लेकिन मौसम खराब होने की वजह से उन्हें मज़बूरन द्वीप के दूसरे कोने पर उतरना पड़ा। अब उन्हें बर्फ से ढके अनजान पहाड़ों से होते हुए 30 किलोमीटर की दूरी तय करके अपनी आखिरी मंज़िल तक पहुँचना था। एक तो तापमान शून्य से बहुत नीचे था और पहाड़ों पर चढ़ने के लिए उनके पास सही साधन भी नहीं थे, फिर भी वे इन सारी रुकावटों को पार करके अपनी मंज़िल, व्हेलिंग स्टेशन पहुँच गए। और बाद में, शैकलटन ने ऐलिफेंट द्वीप में फँसे अपने बाकी साथियों को बचा लिया। शैकलटन ने अपनी जान पर खेलते हुए इतनी जद्दोजहद क्यों की? जीवन-कहानी लिखनेवाले रोलंड हन्टफोर्ड कहते हैं: “उसका केवल एक ही लक्ष्य था, अपने हर आदमी को ज़िंदा वापस लाना।”

### “उनमें से एक भी न छूटेगा”

शैकलटन के साथी जिस द्वीप पर दुबककर बैठे इंतज़ार की घड़ियाँ गिन रहे थे, वह दरअसल “30 किलोमीटर चौड़ी, बर्फ से ढकी हुई एक चट्टान थी जहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल था।” ऐसे में किस बात ने उन्हें उम्मीद बनाए रखने में मदद दी? उन्हें अपने अगुवे शैकलटन पर पूरा भरोसा था कि वह अपने वादे के मुताबिक उन्हें ज़रूर बचाएगा।

आज इंसानों की हालत भी काफी कुछ उन बेसहारा आदमियों की तरह है, जिनके बचने की गुंजाइश बहुत कम थी। आज ज़्यादातर लोग बहुत ही बदतर हालात में जीते हैं और बस ज़िंदा रहने के लिए उन्हें खून-पसीना एक करना पड़ता है। फिर भी, वे पूरा भरोसा रख सकते हैं कि परमेश्वर हर किस्म के ज़ुल्म और मुसीबत से ‘दुखियों को छुड़ाएगा।’ (अय्यूब 36:15) इस बात का पक्का यकीन रखिए कि परमेश्वर हर इंसान की ज़िंदगी को बहुत कीमती समझता है। यहोवा परमेश्वर जिसने हमें बनाया है, वह कहता है: “संकट के दिन मुझे पुकार; मैं तुझे छुड़ाऊंगा।” — भजन 50:15.

क्या आपको यह विश्वास करना मुश्किल लगता है कि

*द्वीप में फँसे आदमियों को पूरा भरोसा था कि शैकलटन उन्हें बचाने का अपना वादा ज़रूर पूरा करेगा*

सिरजनहार खुद आपका ख्याल रखता है, यानी दुनिया के अरबों लोगों में से एक इंसान—आप उसके लिए बहुत कीमती हैं? अगर हाँ, तो ध्यान दीजिए कि भविष्य-वक्ता यशायाह ने हमारे विशाल अंतरिक्ष की अरबों मंदाकिनियों में पाए जानेवाले अरबों तारों के बारे में क्या लिखा। हम पढ़ते हैं: “अपनी आंखें उठाकर देखो कि किसने इन तारागणों की सृष्टि की है, कौन उनके गणों में से एक एक की अगुवाई करता, और उन सब को नाम ले लेकर बुलाता है / उसके विशाल सामर्थ्य और उसकी महाशक्ति के कारण उनमें से एक भी न छूटेगा।” — यशायाह 40:26, NHT.

क्या आपको इन शब्दों का मतलब समझ आया? हमारी अपनी मंदाकिनी आकाशगंगा में, जिसका सौर-मंडल एक छोटा-सा भाग है, कम-से-कम एक खरब तारे हैं। इसके अलावा, अंतरिक्ष में और कितनी मंदाकिनियाँ हैं? यह तो कोई भी पक्का नहीं जानता, लेकिन अनुमान लगाया जाता है कि 1.25 खरब मंदाकिनियाँ मौजूद हैं। तो सोचिए, इन सारी मंदाकिनियों में कितने बेशुमार तारे होंगे! फिर भी बाइबल हमें बताती है कि विशाल अंतरिक्ष का सिरजनहार एक-एक तारे को उसके नाम से जानता है।

### “तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं”

लेकिन कुछ लोग शायद एतराज़ करते हुए कहें: ‘तो क्या हुआ, अरबों तारों या अरबों लोगों का नाम जानने का यह मतलब नहीं कि वह हरेक की परवाह भी करता है।’ यह सच है कि एक कंप्यूटर भी अपने अंदर अरबों लोगों के नाम दर्ज़ कर सकता है। लेकिन कोई यह नहीं कहेगा कि कंप्यूटर उन अरबों लोगों में से किसी एक की भी परवाह करता है। मगर बाइबल बताती है कि यहोवा परमेश्वर अरबों लोगों का सिर्फ नाम ही नहीं जानता बल्कि उनमें से हर एक की परवाह भी करता है। प्रेरित पतरस ने लिखा: “अपनी सारी चिन्ता उसी पर डाल दो, क्योंकि उस को तुम्हारा ध्यान है।” — 1 पतरस 5:7.

यीशु मसीह ने कहा: “क्या पैसे में दो गौरैये नहीं विकतीं? तौभी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उन में से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं। इसलिये, डरो नहीं; तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो।” (मत्ती 10:29-31) ध्यान दीजिए, यीशु ने यह नहीं कहा कि परमेश्वर को सिर्फ इस बात की खबर रहती है कि गौरैयों और इंसानों के साथ क्या होता है। उसने कहा: “तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो।” आप गौरैयों से बढ़कर क्यों हैं?



**“तुम बहुत गौरैयाँ से बढ़कर हो”**

क्योंकि आप ‘परमेश्वर के स्वरूप के अनुसार बनाए’ गए हैं और आप में नैतिक गुण, दिमागी काविलीयतें, साथ ही आध्यात्मिक गुण बढ़ाने और दिखाने की क्षमता है। यह सब परमेश्वर के ही महान गुणों को ज़ाहिर करते हैं।—उत्पत्ति 1:26, 27.

**“कुशल दिमाग की कारीगरी”**

जो लोग सिरजनहार के वजूद को मानने से इनकार करते हैं, उनके दावों से गुमराह मत होइए। वे कहते हैं कि आपको कुदरत की निराकार शक्तियों ने अंधाधुंध बनाया है। वे दावे के साथ कहते हैं कि ‘परमेश्वर के स्वरूप के अनुसार’ आपका बनाया जाना तो दूर की बात, आपमें और जानवरों में कोई फर्क नहीं, यहाँ तक कि आपमें और गौरैयाँ में भी।

क्या आपको इस बात में कोई तुक नज़र आता है कि ज़िंदगी की शुरूआत बस इत्तफाक से या किसी निराकार शक्ति की वजह से हुई? अणु जीव-विज्ञानी माइकल जे. बीही के अनुसार जिन “जटिल-से-जटिल जीव-रासायनिक प्रक्रियाओं” की वजह से जीवन बरकरार है, वे इस विचार को बिलकुल बेतुका सावित करती हैं कि ज़िंदगी इत्तफाक से शुरू हुई। बीही कहते हैं कि जीव-रसायन-विज्ञान के सबूतों से एक ही नतीजा निकलता है जिसे कोई नकार नहीं सकता। वह यह है कि “पृथ्वी पर मौजूद छोटे-से-छोटा जीव . . . भी एक कुशल दिमाग की कारीगरी है।”—*डार्विन की रहस्यमयी धारणा—विकासवाद को जीव-रसायन की चुनौती*, अंग्रेज़ी।

वाइबल कहती है कि इस पृथ्वी पर मौजूद छोटे से लेकर बड़े जीव, एक कुशल दिमाग की कारीगरी हैं। और यह हमें बताती है कि यह कुशल दिमाग यही परमेश्वर का है, जो

पूरे जहान का भी बनानेवाला है।—भजन 36:9; प्रकाशितवाक्य 4:11.

इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आज हम दुःख-तकलीफों से भरी दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन यह बात आपको इस सच्चाई को मानने से रोकने न पाए कि इस पृथ्वी का और यहाँ मौजूद सभी प्राणियों का एक रचनाकार और सिरजनहार है। दो बुनियादी सच्चाइयों को हमेशा याद रखिए। पहली, आज हमारे चारों तरफ जो बुराई फैली हुई है, उसकी शुरूआत परमेश्वर ने नहीं की। दूसरी, हमारे सिर-जनहार ने कुछ ठोस कारणों से बुराई को थोड़े वक्त के लिए इजाज़त दी है। इस *प्रहरीदुर्ग* पत्रिका में कई बार यह चर्चा की गयी है कि यही परमेश्वर ने दुष्टता की इजाज़त सिर्फ कुछ समय के लिए दी है, ताकि शुरू में उसकी हुकूमत को टुकराने की वजह से जो ज़रूरी नैतिक मसले उठे थे उन्हें हमेशा के लिए निपटाया जा सके।\*—उत्पत्ति 3:1-7; व्यवस्थाविवरण 32:4, 5; सभोपदेशक 7:29; 2 पतरस 3:8, 9.

**‘वह दोहाई देनेवाले दरिद्र का उद्धार करेगा’**

हालाँकि आज कई लोगों को बद-से-बदतर हालात में जीना पड़ रहा है, फिर भी ज़िंदगी एक बेहतरीन तोहफा है। इसे कायम रखने के लिए हम हर मुमकिन कोशिश करते हैं। परमेश्वर ने भविष्य में हमें ऐसा जीवन देने का वादा किया है जो एक संघर्ष नहीं होगा। आज इंसान को किसी-न-किसी तरह ज़िंदा रहने के लिए, मुश्किल और दर्दनाक हालात से जूझना पड़ता है, ठीक उसी तरह जैसे ऐलिफेंट द्वीप पर शैकलटन के आदमियों को करना पड़ा था। परमेश्वर का यह मकसद है कि फिलहाल ज़िंदगी में जो तकलीफें और खाली-पन है, उससे हमें छुड़ाए ताकि हम “सत्य जीवन को वश में कर लें,” जैसे शुरू में उसने इंसान के लिए ठहराया था।—1 तीमुथियुस 6:19.

परमेश्वर यह सब इसलिए करेगा क्योंकि हममें से हरेक जन उसकी नज़रों में कीमती है। उसने अपने बेटे, यीशु मसीह का इंतज़ाम किया ताकि वह हमारे लिए छुड़ौती बलिदान देकर हमें पाप, असिद्धता और मौत से छुटकारा दिलाए, जो हमें पहले माता-पिता आदम और हव्वा से विरासत में मिली हैं। (मत्ती 20:28) यीशु मसीह ने कहा:

\* इस विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए ज्ञान जो अनन्त जीवन की ओर ले जाता है किताब का अध्याय 8, “परमेश्वर दुःख को अनुमति क्यों देता है?” देखिए। इसे यहीवा के साक्षियों ने प्रकाशित किया है।

“परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उस ने अपना एक-लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, वह . . . अनन्त जीवन पाए।”—यूहन्ना 3:16.

परमेश्वर उन इंसानों के लिए क्या करेगा जो दर्द और जुल्मों के बोझ तले दबे हुए हैं? ईश्वर-प्रेरणा से लिखा वचन बताता है कि उसका बेटा यीशु क्या करेगा: “वह दोहाई देनेवाले दरिद्र का, और दुःखी और असहाय मनुष्य का उद्धार करेगा। वह कंगाल और दरिद्र पर तरस खाएगा, और दरिद्रों के प्राणों को बचाएगा। वह उनके प्राणों को अन्धे और उपद्रव से छुड़ा लेगा।” वह ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि “उनका लोहू [या, उनका जीवन] उसकी दृष्टि में अनमोल ठहरेगा।”—भजन 72:12-14.

सदियों से इंसान पाप और असिद्धता के बोझ से दबे हुए हैं, मानो वे दर्द और पीड़ा से ‘कराह’ (NHT) रहे हैं। परमेश्वर ने सिर्फ इसलिए इसकी इजाजत दी है, क्योंकि वह जानता है कि इससे होनेवाले हर नुकसान की वह भरपाई कर सकता है। (रोमियों 8:18-22) बहुत जल्द वह अपने राज्य यानी अपनी सरकार के ज़रिए, जिसकी वागडोर उसके बेटे यीशु मसीह के हाथ में है, “सब चीज़ें बहाल” कर देगा।—प्रेरितों 3:21, हिन्दुस्तानी वाइबल; मत्ती 6:9, 10.

“सब चीज़ें बहाल” करने में यह भी शामिल है कि वीते समय में जो लोग दुःख उठाकर मौत की नींद सो चुके हैं, उन्हें दोबारा ज़िंदा करना। आज वे सब परमेश्वर की याद में महफूज़ हैं। (यूहन्ना 5:28, 29; प्रेरितों 24:15) और बहुत जल्द उन्हें “बहुतायत” की ज़िंदगी मिलेगी, यानी इस ज़मीन पर फिरदौस में सिद्ध और हमेशा की ज़िंदगी जिसमें कोई दुःख-तकलीफ नहीं होगी। (यूहन्ना 10:10; प्रकाशितवाक्य 21:3-5) तब हर इंसान अपनी ज़िंदगी का पूरा-पूरा मज़ा ले पाएगा और ऐसे बेहतरीन गुण और काबिलियतें बढ़ा पाएगा, जिनसे ज़ाहिर होगा कि वह ‘परमेश्वर के स्वरूप’ में बनाया गया है।

क्या आप उस ज़िंदगी का लुत्फ उठाने के लिए ज़िंदा रहेंगे जिसका वादा यहोवा ने किया है? यह आप पर निर्भर करता है। हम आपसे गुज़ारिश करते हैं कि आप परमेश्वर के उन इंतज़ामों का फायदा उठाएँ जिनके ज़रिए वह ये सारी आशीषें देनेवाला है। इस पत्रिका के प्रकाशक ऐसा करने में खुशी-खुशी आपकी मदद करना चाहेंगे।

